

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ने ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारियों के लिए बी.टी. सेफ ऐप की शुरुआत की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (18 मई, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) की सवारियों के लिए बी.टी. सेफ (BT Safe) ऐप की शुरुआत की है।

बी.टी. सेफ ऐप, iOS और Android के लिए उपलब्ध एक ट्रांज़िट सेफ्टी मोबाइल रिपोर्टिंग सोल्यूशन (Transit Safety Mobile Reporting Solution) है। यह ऐप, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारियों को उत्पीड़न, सुरक्षा संबंधी चिंताओं या संदिग्ध गतिविधि के बारे में, सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट को रिपोर्ट करने का सुविधाजनक, यूलर-फ्रेंडली और चौकस तरीका पेश करता है। किसी एमरजेंसी की स्थिति में, बी.टी. सेफ ऐप के साथ, सवारियां सीधे, 9-1-1 पर भी सूचना दे सकती हैं।

इस ऐप के प्रयोग से, ग्राहक, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट पर देखी जाने वाली घटनाओं और स्थितियों – चाहे वे वाहन में हों, टर्मिनल पर या बस स्टॉप पर हों, की विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करके, ट्रांज़िट को सभी के लिए अधिक सुरक्षित बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। रिपोर्ट किए गए मुद्दे गोपनीय होते हैं और बिना नाम बताए रिपोर्ट किए जा सकते हैं।

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, अपनी सवारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बी.टी. सेफ ऐप, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के अवॉर्ड-विजेता [कुछ देखें, कुछ सुनें, कुछ कहें \(See Something. Hear Something. Say Something\)](#) पब्लिक जागरूकता प्रोग्राम का विस्तार है, ताकि एक सुरक्षित ट्रांज़िट सिस्टम कायम रखने और ब्रैम्पटन ट्रांज़िट कम्युनिटी की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने में मदद मिल पाए। यह प्रोग्राम, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के सभी कर्मचारियों और सवारियों को सचेत, सूचित, तैयार और सुरक्षा में शामिल साझेदार बनने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

[बी.टी. सेफ ऐप के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें \(Click here to learn more about the BT Safe app\)](#)। ट्रांज़िट के बारे में ताजा जानकारी के लिए, [bramptontransit.com](http://bramptontransit.com) पर जाएं या Twitter पर [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) को 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

### हवाले

“ब्रैम्पटन एक स्वस्थ और सुरक्षित शहर है और बी.टी. सेफ ऐप, कम्युनिटी की सुरक्षा की हिमायत करता है। ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, अपनी सवारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उपयोगकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि ऐप के द्वारा, संदिग्ध या असाधारण गतिविधि की रिपोर्ट करें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“बी.टी. सेफ ऐप, iOS और Android के लिए उपलब्ध, प्रयोग में आसान एक मोबाइल ऐप है। यदि आपको सुरक्षा संबंधी चिंता के बारे में रिपोर्ट करने की जरूरत है, तो बस ऐप खोलें, सिक््योरिटी सर्विसिज को सीधा संदेश भेजने के लिए, ‘Report Now’ चुनें, या जब पुलिस, फायर या मेडिकल सहायता की जरूरत हो, तो एमरजेंसी स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए, ‘911 Emergency’ चुनें।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, बड़ी हुई सुरक्षा और असीमित संचार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बी.टी. सेफ ऐप, यह डिलीवर करने हेतु ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।”

- *पॉल मॉरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सुरक्षा, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारा सिस्टम, हमारी सवारियों और कर्मचारियों के लिए लगातार सुरक्षित बना हुआ है। एक-दूसरे को सुरक्षित रखना, हमारी सबकी जिम्मेदारी है और हम हमारी कम्युनिटी को सलाह देते हैं कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं की रिपोर्ट करें।”

- *एलेक्स मिलोजेविक (Alex Milojevic), जनरल मैनेजर, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)